

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.03.2023

आगामी त्यौहार होली के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 09 अभियुक्त गिरफ्तार, 105 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने आगामी त्यौहार के दृष्टिगत अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 मनकापुर पुलिस ने थाना क्षेत्र में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण/परिवहन/बिक्री कर रहे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 25 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना को0 कर्नेलगंज पुलिस ने 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना तरबगंज पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना मोतीगंज पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना नवाबगंज पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.03.2023

थाना कौडिया क्षेत्र के अन्तर्गत कुटिया में आग लगाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित/प्रकाश में आए अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देशन के क्रम थाना कौडिया पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0स0 051/2023 धारा 436 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बृजेश कुमार दूबे को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना कौडिया क्षेत्र में स्थित शिव मंदिर के पुजारी की कुटिया में आग लगा दिया जिससे कुटिया में रखी कीमती समान जल गया। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कौडिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बृजेश कुमार दूबे पुत्र मंगल प्रसाद दूबे निवासी इमिलियाछीटू थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0-51/2023, धारा 436 भादवि0 थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम:-

01. उ0नि0 रामप्रसाद भार्गव मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.03.2023

नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ गैंग दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ गैंग दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त श्यामराज वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना धानेपुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भाग ले गया था तथा किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना धानेपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर में विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. श्यामराज वर्मा पुत्र खुशीराम वर्मा निवासी किशुनदास पुर शुक्लापुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-20/2023, धारा 376D, 363, 370, 344, 506 भादवि व 5L/6 पॉक्सो ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 संतोष कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.03.2023

नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त घनश्याम उर्फ झप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना वजीरगंज क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज में विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. घनश्याम उर्फ झप्पू यादव पुत्र भगल यादव निवासी प्रभूपुरवा बहदुरा थाना वजीरगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-107/2023, धारा 376, 363, 366 भादवि व 5/6 पॉक्सो ऐक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रामअवतार यादव मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 03.03.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-26 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना इटियाथोक पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।